



NIMBUS PROJECTS LIMITED

(formerly known as NCJ International Limited)

(An ISO 9001 : 2008 Certified Company)

CIN : L74899DL1993PLC055470



NPL/BSE/37/2019-20

February 03, 2020

The Manager
Department of Corporate Relationship,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 511714
Scrip ID: NIMBSPROJ

SUB: - Regulation 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Submission of Copies of Newspaper Clipping of Intimation of Board Meeting.

Pursuant to regulation 30 and 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper clippings of Notice of the Meeting of Board of Directors to be held on February 11, 2020, published in the following newspapers on February 02, 2020:

- (i) Financial Express dated 02.02.2020 (English Daily)
- (ii) Jansatta dated 02.02.2020 (Hindi Daily)

The above notice is also uploaded on the Company's website i.e. www.nimbusprojectsLtd.com

Kindly take the same on records and acknowledge receipt of the same.

Thanking You,
Yours faithfully,

For Nimbus Projects Limited


Sahil Agarwal
(Company Secretary)
M.No.: A36817



Encl. as above

लोकपाल के लिए 74 करोड़ रुपए का प्रावधान

नई दिल्ली, 1 फरवरी (भाषा)।

2020-2021 के आम बजट में लोकपाल के लिए 74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है...

छह साल बाद भी खत्म नहीं हुआ नई शिक्षा नीति का इंतजार

सुरशील राघव नई दिल्ली, 1 फरवरी।

छह साल, दो समितियां और दो लाख से अधिक सुझाव मिलने के बाद भी देश के लोगों को नई शिक्षा नीति का अभी भी इंतजार है।

2014 के आम चुनाव में भाजपा ने नई शिक्षा नीति लाने का वादा किया था। चुनाव जीतने और केंद्र की सरकार में आने के बाद फरवरी 2015 में मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया।

शिक्षा क्षेत्र को महत्त्व देने पर निशंक ने जताया आभार

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 1 फरवरी।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय बजट 2020 को सराहना की और बजट में शिक्षा के क्षेत्र को प्रमुखता देते हुए 99,300 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।



केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे इस बात का हर्ष है कि देश में कुशल श्रमशक्ति के विकास के लिए मार्च 2021 तक देशभर में कुल 150 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अपरेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।

निशंक ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के नए भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

शिक्षा में पहुंच, इकित्ती और समावेशन को बेहतर करने के लिए नई पहलों का प्रावधान रखा गया है।

उपयोगिता खो चुकी 80 चीजों पर सीमा शुल्क छूट वापस ली

गजेंद्र सिंह नई दिल्ली, 1 फरवरी।

राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल के केंद्रीय बजट में बेकार हो चुकी पुरानी और अप्रचलित प्रविष्टियों को छोटकर सीमा शुल्क छूट की समीक्षा की गई है।

इसके साथ ही एनएसएमई (मध्यम एवं लघु उद्योग) के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क परिवर्तन किया गया है।

कोटेड पेपर, पेपर बोर्ड और हैंड मेड पेपर पर आयात शुल्क दोगुना बढ़ाकर 20 फीसद करने पर विचार करने को कहा गया है।

इनमें इतना बढ़ाया गया शुल्क फर्मे, मिक्सर, पानी के हीटर, बाल और हाथ सुखाने का उपकरण, कुकर, ओवन, टोस्टर, हीटर का सीमा शुल्क 10 फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद हुई।

जनगणना विभाग के बजट में 700 फीसद का इजाफा

नई दिल्ली, 1 फरवरी (भाषा)।

देशभर में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनआरसी) पर छिड़ी बहस के बीच आम बजट 2020-21 में जनसंख्या, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी और भारत के महारजिस्टर विभाग का कुल बजट आवंटन करीब 700 फीसद बढ़ाया गया है।

वित्त वर्ष 2019-20 में विभाग के लिए कुल 621.33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे 2020-21 के आम बजट में बढ़ाकर 4,568 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

केंद्रीय विवि के बजट में 12 फीसद की वृद्धि

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 1 फरवरी।

केंद्र सरकार ने शिक्षा के कुल बजट को करीब 4,450 करोड़ रुपए बढ़ा कर 99,300 करोड़ रुपए कर दिया है लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बजट में लगभग 12 फीसद की बढ़ोतरी की गई है।

NIMBUS Project Solutions Limited advertisement with contact details and services.

सावंत ने बजट की सराहना की, कांग्रेस ने उठाए सवाल

पणजी, 1 फरवरी (भाषा)।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2020-21 का स्वागत करते हुए इसे 'आम आदमी पर केंद्रित' बजट बताया।

Advertisement for The Indian Express featuring a woman and text 'I arrive at a conclusion not an assumption.'

'बजट में महाराष्ट्र और मुंबई की सबसे ज्यादा अनदेखी'



मुंबई, 1 फरवरी (भाषा)।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना, राकापा और कांग्रेस ने शनिवार को पेश केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार दिया और कहा कि बजट में सबसे ज्यादा कर देने वाले महाराष्ट्र और मुंबई की अनदेखी की गई है।

किया है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा, 'जैसे कौन कर लाभ नहीं लेना चाहेगा? उान लीजिए कि कोई जीवन बीमा या चिकित्सा बीमा में निवेश करता है तो वह क्यों नहीं कर लाभ लेगा?'

शिवसेना नेता ने एनए इंडिया जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बंद करने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, 'यह बड़ा झटका है। साथ ही, ये भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) पर आश्रित हो रहे हैं।'

GLOBUS SPIRITS LIMITED advertisement with company details and notice.

JAIN CO-OPERATIVE BANK LTD. advertisement with financial details and terms and conditions.

Advertisement for Panjari (फार्म) with details on services and contact information.

Classifieds

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, TSHETEN PHUNTSHOG s/o WANGYAL s/o Ashoka Hotel, 2/C, Ground Floor, Rockville, Darjeeling, West Bengal-734101 declare that name of mine and my father has been wrongly written as TSETAN PHUNSOB BHUTIA and THUPDEN BHUTIA respectively in my PAN (AUKPB0887A) database issued by Income Tax Department. The actual name of mine and my father is TSHETEN PHUNTSHOG and WANGYAL respectively.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, PEMBA TAMANG s/o CHANDRA BAHADUR TAMANG s/o Rajbari, Ward No. 06, Rani Hiti, Pul Bara, Darjeeling, West Bengal-734101 declare that name of mine, my father has been wrongly written as PEMBA LAMA and CHAI NORBU LAMA respectively in my PAN (CUCPS1268Q) database issued by Income Tax Department. The actual name of mine and my father is PEMBA TAMANG and CHANDRA BAHADUR TAMANG respectively.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, RAJANI CHETTRI s/o DILIP BAHADUR CHETTRI Address: Suam Lodge, 11, Dr. Yen Singh Road, Darjeeling, West Bengal-734101 declare that name of my father has been wrongly written as DILIP CHETTRI in my PAN (ANAPC927F) database issued by Income Tax Department. The actual name of my father is DILIP BAHADUR CHETTRI.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, PREET CHADHA s/o AMARJEET SINGH s/o C-44/35, Gali No.-8, Sudama Puri, Gauri Extn., Garhi Mendu, Delhi 110053 declare that name of my father has been wrongly written as BISHAN SINGH in my Aadhar (3356 8699 5471), PAN (BOAPC146A) database issued by Income Tax Department, vote card No. WAM2657310. The actual name of my father is AMARJEET SINGH.

Brilliant Portfolios Limited
 Regd. Office: B-9, 412, I.T.L. Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110086
 Tel.: 011-45058963 Email: brilliantportfolios@gmail.com
 CIN-L74899DL1994PLC057507

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 11th February, 2020 at 10:30 a.m. at its registered office, inter-alia to consider, approve and take on records the Unaudited financial results of the company for the Quarter ended on 31st December, 2019.

The information contained in the Notice is available on the website of the Company- www.brilliantportfolios.com and on the website of BSE- www.bseindia.com

For Brilliant Portfolios Limited
 Sd/-
 Ashish
 Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
 Date: 01/02/2020

**FORM A
 PUBLIC ANNOUNCEMENT**
 [Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/S. VOGUE CLOTHIERS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1. Name of Corporate Debtor	M/S. VOGUE CLOTHIERS PRIVATE LIMITED
2. Date of incorporation of Corporate Debtor	29/03/2007
3. Authority under which Corporate Debtor is incorporated	Registrar of Companies, Delhi Ministry of Corporate Affairs
4. Corporate Identity Number of the Corporate Debtor	U18204DL2007PTC161281
5. Address of the Registered office and Principal Office, if any, of Corporate Debtor	110, 1st Floor, Plot. No. 5, LSC, Mohan Complex, H Block Ashok Vihar, Phase -1, Delhi - 110052
6. Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	30th January, 2020
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	28th July, 2020
8. Name and the registration number of the insolvency professional acting as Interim Resolution Professional	Name - Karuna Sharma Reg. No. - IBBI/PA-002/2017-18/10944
9. Address and email of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address : G-13, First Floor, South City-2, Sector -50, Gurgaon Haryana - 122018 Email id : sharma.karuna@gmail.com Mob : 9871145777
10. Address and email to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address : G-13, First Floor, South City-2, Sector -50, Gurgaon Haryana - 122018 Email id : sharma.karuna@gmail.com
11. Last date for submission of claims	13th February, 2020
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	NIL
13. Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	NIL
14. (a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	a) Web link : https://ibbi.gov.in/home/downloads Physical Address : G-13, First Floor, South City-2, Sector-50, Gurgaon Haryana - 122018

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of Vogue Clothiers Private Limited on 30th January, 2020 vide its order being communicated to the Interim Resolution Professional on 31st January, 2020.

The creditors of Vogue Clothiers Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 13th February, 2020 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic, means. Submission of false or misleading proof of claim shall attract penalties.

Date : 1st February, 2020
 Place : Gurgaon
 Sd/-
 Karuna Sharma
 Interim Resolution Professional

GE T&D India Limited
 (CIN: L31102DL1957PLC193993)
 Regd. Off.: A-18, First Floor, Okha Industrial Area, Phase II, New Delhi - 110020 Tel. No.: 91-11-4161 0660
 Website : <http://www.ge.com/in/ge-td-india-limited>

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company, which was earlier scheduled to be held on Thursday, February 6, 2020, has been postponed and rescheduled to be held on Friday, February 7, 2020 to consider and approve, inter-alia, the unaudited financial results for the third quarter and nine months ended on December 31, 2019, subject to limited review by the Auditors. The Notice is available on the website of the Company, i.e. <http://www.ge.com/in/ge-td-india-limited> and that of the stock exchanges, i.e. www.nseindia.com, www.bseindia.com.

For GE T&D India Limited
 Sd/-
 Manoj Prasad Singh
 Company Secretary

February 1, 2020
 Noida

NIMBUS PROJECTS LIMITED
 (CIN: L74899DL1993PLC055470)
 Registered Office: 1001-1006, 10th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi-110001
 E-mail: nimbusindia@td@gmail.com, Website: www.nimbusprojects.com
 Phone: +91-11-42878900, Fax: +91-11-41500023

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 11th day of February, 2020, inter-alia, to consider and approve the un-audited (Standalone & Consolidated) financial results for the quarter ended on December 31, 2019.

The said notice is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the Company's securities are listed and shall also be available on the website of the Company (www.nimbusprojects.com).

For Nimbus Projects Limited
 Sd/-
 (Sahil Agarwal)
 Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
 Date: 01st February, 2020

**FORM G
 INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST**
 (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

1. Name of the corporate debtor	PD Advisory Services LLP
2. Date of incorporation of corporate debtor	18-12-2014
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Delhi
4. Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	LLPIN: AAD-0771 Suspended Partners: 1. Mr. Devendra Taneja (DIN:00225527) 2. Mrs. Punita Taneja (DIN:00225540)
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Green Desks 404, Vishal Bhawan, 95 Nehru Place Delhi -110019; email id: devendra.taneja@e-pspl.com
6. Insolvency commencement date of the corporate debtor	21-10-2019
7. Date of invitation of expression of interest	31-01-2020
8. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details can be sought by emailing at crip.pdadvisory@gmail.com
9. Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Available on the website of IBBI (www.ibbi.gov.in) or can be sought by emailing at: crip.pdadvisory@gmail.com
10. Last date for receipt of expression of interest	10.02.2020
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	17.02.2020
12. Last date for submission of objections to provisional list	22.02.2020
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	27.02.2020
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	22.02.2020
15. Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Request for Resolution Plan, Evaluation Matrix and Information Memorandum shall be sent by email upon verification of eligibility criteria as per point no. 8 above and subject to receipt of undertaking under section 29 (2) of IBC, 2016.
16. Last date for submission of resolution plans	23.03.2020
17. Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Resolution Plan shall be submitted in a sealed cover as addressed mentioned at item no. 21
18. Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	12.04.2020
19. Name and registration number of the resolution professional	Maya Gupta; Regn No. IBBI/PA-002/IP-N00363/2017-18/11061
20. Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Maya Gupta R/o : 3685/7, Narang Colony, Tri Nagar, Delhi-110035 Email ID : fcmayagupta@gmail.com
21. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Maya Gupta C/o : 701, Vikrant Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008 Email ID : crip.pdadvisory@gmail.com
22. Further Details are available at or with	Further information can be obtained from Resolution Professional through email id : crip.pdadvisory@gmail.com
23. Date of publication of Form G	02.02.2020

DATE: 01.02.2020
 PLACE: DELHI
 Maya Gupta IBBI Registration No.: IBBI/PA-002/IP-N00363/2017-18/11061
 R/o: 3685/7, Narang Colony, Tri Nagar, Delhi-110035
 For PD Advisory Services LLP

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED
 Registered Office: B-28, Safdarjung Enclave New Delhi -110029
 CIN - L74899DL1988PLC031191

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 12th February, 2020, inter-alia, to consider and approve the unaudited financial results of the Company for quarter ended on 31st December, 2019.

The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.bagla-group.com and the website of the Stock Exchange BSE Limited-www.bseindia.com.

For Hindustan Adhesives Limited
 Sd/-
 M.S. Bagla
 Managing Director
 DIN-01425646

Place : New Delhi
 Date : 01.02.2020

HOWARD HOTELS LIMITED
 Regd. Off.: 20, Maurya Complex, 8-28, Subhash Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092
 Corp. Office: Hotel Howard Plaza, Fatehabad Road, Agra-282001 (Uttar Pradesh)
 CIN: L74899DL1989PLC038622
 Ph: 0562-4048600, Fax: 0562-4048666, Email: cs@howardhotels.com

NOTICE

Pursuant to Regulations 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be convened at its Corporate Office, Agra on Wednesday, February 12, 2020, inter alia, to consider and approve, the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2019.

The information and further details are available on the website of the Company i.e. www.howardhotels.com and on the website of Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.

For HOWARD HOTELS LIMITED
 Date : February 01, 2020
 Place: Agra
 Sd/-
 N.N. Mittal
 (Chairman & Managing Director)
 DIN: 01533102

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

XTGLOBAL INFOTECH LIMITED
 (Formerly Frontier Informatics Limited)
 Regd Office: Plot No 31P&32, 3rd Floor, Tower A, Ramky Selenium, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad- 500 032. Tel No: 040 23007456
 Email id: company.secretary@xtindia.com, Website: www.xtindia.com, CIN:L72200TG1986PLC006644

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2019 (Rs. In Lakhs)

PARTICULARS	STANDALONE			CONSOLIDATED		
	Quarter ended Dec 31, 2019	Year to date Dec 31, 2019	Quarter ended Dec 31, 2018	Quarter ended Dec 31, 2019	Year to date Dec 31, 2019	Quarter ended Dec 31, 2018
Total income	148.78	316.29	6.00	148.78	316.29	6.00
Net profit/(loss) for the period before tax and exceptional items	36.16	73.78	(2.41)	36.16	73.78	(2.41)
Net profit/(loss) for the period before tax after exceptional items	46.27	92.85	(2.41)	46.27	92.85	(2.41)
Net profit/(loss) for the period after tax	46.27	92.85	(2.41)	46.27	92.85	(2.41)
Total comprehensive income	46.27	92.85	(2.41)	46.27	92.85	(2.41)
Share of profit from associate	0.00	0.00	0.00	108.21	108.21	0.00
Equity share capital	949.51	949.51	126.55	949.51	949.51	126.55
Reserves as shown in Audited balance sheet of previous year						(301.90)
Earnings per share (of Rs. 1/- each)						
1. Basic (in Rs.)	0.06	0.17	(0.02)	0.21	0.37	(0.02)
2. Diluted (in Rs.)	0.06	0.17	(0.02)	0.21	0.37	(0.02)

Note : The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of unaudited standalone and consolidated financial results are available on website of the stock exchange (www.bseindia.com) and Company's website (www.xtindia.com).

For XTGlobal Infotech Limited
 V Sreedevi
 Wholetime Director
 DIN: 02448540

Place : Hyderabad
 Date : January 31, 2020

A Infrastructure Limited
 (Formerly Shree Pipes Limited)
 Regd. Office & Works : Hamirgarh - 311 025, Distt. Bhiwar (Rajasthan)
 Phone : 01482-286102, FAX : 01482-286104, Web : www.ainfrastrucure.com, Email : cs@kanoria.org, CIN : L25191RJ1980PLC002077

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED ON 31.12.2019 (Rs. in Lacs)

Particulars	Quarter Ended			Nine Month Ended			Year Ended
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
	31.12.2019	30.09.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2019	
Total Income from Operations (net)	5366.07	5138.08	5358.96	19,696.35	20,053.76	26035.35	
Net Profit/(Loss) from Ordinary Activities (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	26.61	77.33	17.76	643.26	1,101.74	964.57	
Net Profit/(Loss) from Ordinary Activities before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	26.61	77.33	17.76	643.26	1,101.74	964.57	
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	8.20	48.99	8.99	569.09	1034.66	842.98	
Other comprehensive income for the period	0.45	13.36	8.40	10.85	13.78	33.80	
Total comprehensive income for the period	8.65	62.35	17.39	579.94	1,048.44	876.78	
Equity Share Capital (Face Value: Rs. 5/- each)	2132.29	2132.29	2132.29	2132.29	2132.29	2132.29	
Total Reserves i.e. Other Equity	-	-	-	-	-	3,065.54	
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of 5/- each):							
Basic:	0.02	0.11	0.02	1.33	2.43	2.05	
Diluted:	0.02	0.11	0.02	1.33	2.43	2.05	
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of 5/- each):							
Basic:	0.02	0.11	0.02	1.33	2.43	2.05	
Diluted:	0.02	0.11	0.02	1.33	2.43	2.05	

NOTES:

- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by Board of Directors at its meeting held on 01st February, 2020.
- The statutory auditors of the Company have carried out the limited review of these financial results as required under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The Company has only one operating segment i.e. A.C. Sheets and Pipes.
- The Company has entered into an agreement on 25th June, 2018 and extension agreement dated 20th December, 2018 for purchases of land and related assets of distillery from M/s. J.R. Organics Limited for a sum of Rs. 26.50 Crore. An advance of Rs. 12.61 Crore has been given by the Company to M/s. J.R. Organics Limited till 31st December, 2019.
- The Company has adopted Ind AS 116 - 'Leases' which is mandatory for reporting periods beginning on or after 1st April 2019. Application of Ind AS 116 does not have any material impact on the financial statements of the Company.
- Figures for the previous period have been regrouped / reclassified wherever necessary, to conform to current period's classification.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Nine month ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Nine month ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.ainfrastrucure.com).

For and on behalf of the Board of Directors
 Sd/-
 (Kuldeep Kaw)
 Director
 DIN: 07882201

Place : New Delhi
 Date : 01.02.2020

J.L.MORISON (INDIA) LIMITED
 (CIN: L51109WB1934PLC088167)
 Regd. Office : 'Rasoi Court', 20 Sir R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001
 Ph : 033 22480114/15, Email Id: investors@jlmorison.com, Website: www.jlmorison.com/corporate

Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2019 (Rs. in lakhs except EPS)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Nine months ended
		31-12-2019	31-12-2018	
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited
1	Total income from operations (net)	2,366.87	2,180.45	7,233.30
2	Net Profit/(loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extra ordinary items)	119.48	230.36	526.38
3	Net Profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra ordinary items)	119.48	230.36	526.38
4	Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra ordinary items)	90.11	200.13	397.84
5	Total Comprehensive Income for the period [(comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(98.68)	(13.64)	(92.85)
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	136.50	136.50	136.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-
8	Earning per Equity share ((of Rs. 10/- each) (Basic & Diluted))	6.61	14.66	29.15

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2019 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.jlmorison.com/corporate).
- The above Un-Audited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 31st January, 2020.
- Based on the "management approach" as defined in Ind AS 108 - Operating Segments, the Company is primarily engaged in the business of personal care products which the management recognises as the sole business segment. Hence, disclosure of segment-wise information is not required and accordingly not provided.
- Tax expenses for the quarter and nine months ended 31st December, 2019 reflect changes made vide Taxation Laws (Amendment) Act, 2019.
- Previous periods figures have been regrouped / reclassified wherever necessary, to conform to the current period's classification.

For and on behalf of the Board of Directors
 J. L. Morison (India) Limited
 Sd/-
 Sohan Sarda
 Executive Director & CEO
 DIN: 00129782

Place: Mumbai
 Date: 31st January, 2020

CARNATION INDUSTRIES LTD.
 Regd. Office: 28/1, Jheel Road, Liluah, P.O. Salkia, Howrah - 711 106
 Phone: 033 2280 3127
 E-mail: investor@camationindustries.com
 Web: www.camationindustries.com
 CIN: L27209WB1983PLC035920

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of Carnation Industries Limited (the Company) will be held on Thursday, 13th February, 2020, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the 3rd quarter ended December 31, 2019. The aforesaid information is available on the website of the Company www.camationindustries.com and also on the website of the Stock Exchange, viz., www.bseindia.com.

For Carnation Industries Limited
 Place : Kolkata
 Date : 01.02.2020
 Sanjay Agarwal
 Company Secretary

Groyv India Limited
 (Formerly Groyv Exports & Marketing Limited)
 CIN: L74130DL1985PLC021532
 Regd Office: 122, 1st Floor, Vinobapuri, Lalpat Nagar II, New Delhi - 110024, Ph:011-46740000
 Email: groyvindia@gmail.com
 Website: www.groyvindia.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 10th February, 2020 at 03:00 p.m. at registered office of the Company at 122, 1st Floor, Vinobapuri, Lalpat Nagar II, New Delhi - 110024 inter-alia to consider the un-audited financial results for the third quarter (Q3) and nine months ended on 31st December, 2019. The Board Meeting notice can be accessed at Company's website www.groyvindia.com under Investor Zone Tab - Corporate Announcements head and at website of exchange viz. www.bseindia.com.

By order of the Board
 Sd/-
 (Nishit Jalan)
 Whole-Time Director & CEO
 Place: New Delhi
 Date: 01.02.2020
 DIN: 02964239

ARYAVART BANK आर्यावर्त बैंक
 (A Joint Undertaking of Govt. of India, U.P. Govt. & Bank of India) (आर्य सक्कर, उत्तर प्रदेश सक्कर एवं बैंक बोर्ड सहित का संयुक्त उद्यम)
 Branch : Naurangabad, Aligarh

POSSESSION NOTICE {for immovable property under Rule 9(1)}

The Authorized Officer of Aryavart Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on the date mentioned against account and stated hereunder calling upon the borrowers/guarantors/mortgagors to repay the amount mentioned in the notice being together with further interest at contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. within sixty days from the date of receipt of said notice. The borrowers/guarantors/mortgagors having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrowers/guarantors/mortgagors and the public in general that the undersigned has taken the possession of the properties described herein below in exercise to powers conferred on him/her under section 13(4) of the said act read with the Rule-8 of the said Rules on the date mentioned hereunder. The borrowers attention is invited to the provision of Sub-Section (8) of section - 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. The Borrowers/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties. Any dealing with